



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सप्ताहिक
WEEKLY

सं. 22] नई दिल्ली, मई 28—जून 3, 2006, शनिवार/ज्येष्ठ 7—ज्येष्ठ 13, 1928
No. 22] NEW DELHI, MAY 28—JUNE 3, 2006, SATURDAY/JYAISTHA 7—JYAISTHA 13, 1928

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालय (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं।)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 12 मई, 2006

सा.का.नि. 122.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (अधीनस्थ पद) भर्ती नियम, 1999 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (अधीनस्थ पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 2006 है।
- (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (अधीनस्थ पद) भर्ती नियम, 1999 की अनुसूची में,—

(क) स्तंभ 2 के अधीन विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

"49470 *

(2006)

*(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)";

(ख) स्तंभ 8 के अधीन उपशीर्ष और "छूट देने की शक्ति" से संबंधित उसके अधीन प्रविष्टि का लोप किया जाएगा।;

(ग) स्तंभ 11 के अधीन विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(i) पांच प्रतिशत औद्योगिक उपक्रम से व्यक्तियों के आमेलन द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा या दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा ;

- (ii) नब्बे प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा ;
- (iii) पांच प्रतिशत अनुचरों में से पुनःमस्ट्रीकरण द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा ।”;
- (घ) स्तंभ 12 के अधीन,—
- (i) मद (ii) के अंत में निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—
- “प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।”;
- (ii) मद (ii) के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—
- “(iii) पुनःस्यष्टीकरण :—केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के ऐसे अनुचर जिन्होंने बल में कम से कम तीन वर्ष नियमित सेवा की है और जो तीस वर्ष से नीचे के हैं और जिन्होंने परीक्षा अवधि समाधानप्रद रूप से पूरी कर ली है और जिनके पास स्तंभ 8 के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए यथा विहित शैक्षणिक अर्हताएं और पात्रता मानदंड हैं।”

[फा. सं. ई-32011/4/2001/स्था.-I]

श्याम जिंदल, उप सचिव (कार्मिक-I)

टिप्पण :- मूल नियम भारत के राजपत्र में सं. सा.का.नि. 87(अ) तारीख 25 जनवरी, 2000 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् सा.का.नि. 484(अ) तारीख 28 जून, 2001, सा.का.नि. 824(अ) तारीख 13 दिसंबर, 2002, सा.का.नि. 619(अ) तारीख 1 अगस्त, 2003, और सा.का.नि. 387(अ) तारीख 19 अक्टूबर, 2005 द्वारा संशोधित किए गए ।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 12th May, 2006

G.S.R. 122.—In exercise of the powers conferred by proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Central Industrial Security Force, Security Wing (Subordinate Ranks) Recruitment Rules, 1999, namely :—

1. (1) These rules may be called the Central Industrial Security Force, Security Wing (Subordinate Ranks) Recruitment (Amendment) Rules, 2006.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Central Industrial Security Force, Security Wing (Subordinate Ranks) Recruitment Rules, 1999, against the post of Constable,—

(a) under column 2, for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely :—

“49470*

(2006)

*Subject to variation dependent on workload”;

(b) under column 8, the sub-heading and the entry thereunder relating to “Power of Relaxation” shall be omitted.;

(c) under column 11, for the existing entries, the following entries shall be substituted, namely :—

“(i) Five per cent, by absorption of persons from industrial undertaking, failing which by deputation or failing both, by direct recruitment;

(ii) Ninety per cent, by direct recruitment;

(iii) Five per cent, by remusteration from followers failing which by direct recruitment.”;

(d) under Column 12,—

(i) in item (ii), the following shall be inserted at the end, namely :—

“The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications.”;

(ii) after item (ii), the following item shall be inserted, namely :—

(iii) Remusteration : Followers of the Central Industrial Security Force who have put in minimum three years regular service in the Force and are below thirty years of age and who have satisfactorily

completed the probation period and possess the educational qualifications and eligibility criteria as prescribed for direct recruits under columns 8.”

[F. No. E-32011/4/2001/Estt.-I]

SHYAM JINDAL, Dy. Secy. (Pers. I)

Note:—The principal rules were published in the Gazette of India vide number G.S.R. 87 (E), dated 25th January, 2000 and subsequently amended vide G.S.R. 484 (E), dated 28th June, 2001, G.S.R. 824 (E), dated 13th December, 2002, G.S.R. 619 (E), dated 1st August, 2003 and G.S.R. 387, dated 19th October, 2005.

नई दिल्ली, 12 मई, 2006

सा.का.नि. 123.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (अधीनस्थ पद) भर्ती नियम, 1999 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, अराजपत्रित सिविलियन (अधीनस्थ पद) भर्ती संशोधन नियम, 2006 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (अधीनस्थ पद) भर्ती नियम, 1999 की अनुसूची में,—

(i) लेखाकार के पद के सामने, स्तंभ (12) के उपशीर्ष (ii) के अधीन “भारतीय रेल लेखा विभाग, भारतीय रक्षा लेखा विभाग के समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण की हो” शब्दों के स्थान पर “भारतीय रक्षा लेखा विभाग, भारतीय रेल लेखा विभाग से समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण की है या ऐसे व्यक्तियों में से जो केन्द्रीय सरकार के विभागों के अधीन नियमित आधार पर सदृश्य पद धारण किए हुए हैं और सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंधन संस्थान से रोकड़ और लेखा प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं” शब्द रखे जाएंगे।

[फा. सं. ई-32012/02/2005/स्था.-I]

श्याम जिंदल, उप सचिव (कार्मिक-1)

टिप्पण :—मूल नियम भारत के राजपत्र भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में सा.का.नि. 88 (अ), दिनांक 31 जनवरी, 2000 द्वारा प्रकाशित हुए थे।

New Delhi, the 12th May, 2006

G.S.R. 123.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Central Industrial Security Force (Subordinate Posts) Recruitment Rules, 1999 namely.

1. (1) These rules may be called the Central Industrial Security Force, Non-Gazetted Civilian (Subordinate Posts) Recruitment Amendment Rules, 2006.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Central Industrial Security Force (Subordinate Posts) Recruitment Rules, 1999,—against the post of Accountant, in columns (12), under the sub-heading (ii), for the works “Indian Railway Accounts Department”, the words “Indian Railway Accounts Department or persons holding analogous posts under the Central Government Department on regular basis and have undergone training in Cash and Accounts of Institute of Secretarial Training & Management” shall be inserted.

[F. No. E-32012/02/2005/Estt. -I]

SHYAM JINDAL, Dy. Secy. (Pers. I)

Note:—The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 88(E), dated the 31st January, 2000.

भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय

नई दिल्ली, 22 मई, 2006

सा.का.नि. 124.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय और राज्य एवं संघ राज्यक्षेत्रों में स्थित जनगणना कार्य निदेशकों के कार्यालयों (वरिष्ठ नक्शानवीस) भर्ती नियम, 2001 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय और राज्य एवं संघ राज्यक्षेत्रों में स्थित जनगणना कार्य निदेशकों के कार्यालयों (वरिष्ठ नक्शानवीस) भर्ती संशोधन नियम, 2006 होगा।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय और राज्यों एवं संघ राज्यक्षेत्रों में स्थित जनगणना कार्य निदेशकों का कार्यालय (वरिष्ठ नक्शानवीस) भर्ती नियम, 2001 की अनुसूची में:

- (क) कालम 5 में दिए गए शीर्ष तथा प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित शीर्ष तथा प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“क्या चयन या अचयन पद है

चयन”;

- (ख) कालम 8 के उप पैरा (ii) के अन्तर्गत दी गई विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्

“मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान या समकक्ष से व्यावसायिक या ललित कला या सिविल इंजीनियरिंग में दो वर्ष का डिप्लोमा”; और

- (ग) कालम 13 में दी गई विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“समूह ख विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति/पुष्टिकरण पर विचार करने हेतु)

1. भारत के महारजिस्ट्रार - अध्यक्ष
2. भारत के संयुक्त महारजिस्ट्रार या उप सचिव,
भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय - सदस्य
3. उप महारजिस्ट्रार (मानचित्र) या सहायक महारजिस्ट्रार
(मानचित्र), भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय - सदस्य

[फा. सं. ए-12032/10/99-प्रशा.-2]

डी.एस. सैनी, अवर सचिव

टिप्पणी : मूल नियम दिनांक 15 मार्च, 2001 के सा.का.नि. 178 द्वारा अधिसूचित किए गए थे और तत्पश्चात् इन्हें दिनांक 7 दिसम्बर, 2001 के सा.का.नि. 679 द्वारा संशोधित किया गया है।

OFFICE OF THE REGISTRAR GENERAL, INDIA

New Delhi, the 22nd May, 2006

G.S.R. 124.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the office of the Registrar General, India and the offices of the Directors of Census Operations in States and the Union Territories (Senior Draughtsman) Recruitment Rules, 2001, namely:—

1. (1) These rules may be called the office of the Registrar General, India and the offices of the Directors of Census Operations in States and Union Territories, (Senior Draughtsman) Recruitment Amendment Rules, 2006.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the office of the Registrar General, India and the offices of the Directors of Census Operations in States and Union Territories (Senior Draughtsman) Recruitment Rules, 2001,—

- (a) in the column 5, for the column heading and entries under it, the following column heading and entries shall be substituted, namely:—

“Whether Selection or Non-selection post.

Selection”;

- (b) under the column 8, in sub-para (ii), for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely:—

“Diploma of two years duration in Commerical or Fine Arts or Civil Engineering from a recognized University/Institute or equivalent”; and

- (c) under the column 13, for the existing entries, the following entries shall be substituted, namely:—

“Group ‘B’ Departmental Promotion Committee (For considering promotion/confirmation)

1. Registrar General, India - Chairman
2. Joint Registrar General, India or Deputy Secretary,
Office of the Registrar General, India - Member

3. Deputy Registrar General (Map) or Assistant Registrar General (Map), office of the Registrar General, India

Member".

[F. No. A-12032/10/99-Ad.-II]

D. S. SAINI, Under Secy.

Note :- The principal rules were notified *vide* No. G.S.R. 178, dated 15 March, 2001 and subsequently amended *vide* No. G.S.R. 679 dated 7th December, 2001.

नई दिल्ली, 25 मई, 2006

सा.का.नि. 125.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गृह मंत्रालय के अधीन लोक नायक जयप्रकाश नारायण राष्ट्रीय अपराधशास्त्र एवं विधि विज्ञान, सहायक (समूह "ग") भर्ती नियम, 2004 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम लोक नायक जयप्रकाश नारायण राष्ट्रीय अपराधशास्त्र एवं विधि विज्ञान, सहायक (समूह "ग") भर्ती नियम, 2006 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लोक नायक जयप्रकाश नारायण राष्ट्रीय अपराधशास्त्र एवं विधि विज्ञान, सहायक (समूह "ग") भर्ती नियम, 2004 के नियम 1 के उप-नियम (1) में, "2004" अंकों के स्थान पर, "2006" अंक रखे जाएंगे।

[फा. सं. 4/4/2001-एनआइसीएफएस/पीएम-II]

रमन मेहरा, अवर सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. 8, तारीख 8 जनवरी, 2005 को प्रकाशित किए गए थे।

New Delhi, the 25th May, 2006

G.S.R. 125.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Lok Nayak Jayaprakash Narayan National Institute of Criminology and Forensic Science, Assistant (Group 'C' post) Recruitment Rules, 2004, namely:—

1. (1) These rules may be called the Lok Nayak Jayaprakash Narayan National Institute of Criminology and Forensic Science, Assistant (Group 'C' post) Recruitment Amendment Rules, 2006.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Lok Nayak Jayaprakash Narayan National Institute of Criminology and Forensic Science, Assistant (Group 'C' post) Recruitment Rules, 2004, in rule 1, in sub-rule (1), for the figures "2004" occurring at the end, the figures "2006" shall be substituted.

[F. No. 4/4/2001-NICFS/PM- II]

RAMAN MEHRA, Under Secy.

Note :- The principal rules were published in the Gazette of India Part II, Section 3, sub-section (i) *vide* number G.S.R. 8 dated the 8th January, 2005.

नई दिल्ली, 25 मई, 2006

सा.का.नि. 126.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गृह मंत्रालय के अधीन लोक नायक जयप्रकाश नारायण राष्ट्रीय अपराधशास्त्र एवं विधि विज्ञान, हिन्दी अनुवादक (समूह "ग") भर्ती नियम, 2004 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम लोक नायक जयप्रकाश नारायण राष्ट्रीय अपराधशास्त्र एवं विधि विज्ञान, हिन्दी अनुवादक (समूह "ग") भर्ती नियम, 2006 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लोक नायक जयप्रकाश नारायण राष्ट्रीय अपराधशास्त्र एवं विधि विज्ञान, हिन्दी अनुवादक (समूह "ग") भर्ती नियम, 2004 के नियम 1 के उप-नियम (1) में, "2004" अंकों के स्थान पर, "2006" अंक रखे जाएंगे।

[फा.सं. 4/4/2001-एनआइसीएफएस/पीएम-II]

रमन मेहरा, अवर सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. 9, तारीख 8 जनवरी, 2005 को प्रकाशित किए गए थे।

1527 4866-2

New Delhi, the 25th May, 2006

G.S.R. 126.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Lok Nayak Jayaprakash Narayan National Institute of Criminology and Forensic Science, Hindi Translator (Group 'C' post) Recruitment Rules, 2004, namely :—

1. (1) These rules may be called the Lok Nayak Jayaprakash Narayan National Institute of Criminology and Forensic Science, Hindi Translator (Group 'C' post) Recruitment Amendment Rules, 2006.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Lok Nayak Jayaprakash Narayan National Institute of Criminology and Forensic Science, Assistant (Group 'C' post) Recruitment Rules, 2004, in rule 1, in sub-rule (1), for the figures "2004" occurring at the end, the figures "2006" shall be substituted.

[F. No. 4/4/2001-NICFS/PM-II]

RAMAN MEHRA, Under Secy.

Note :- The principal rules were published in the Gazette of India Part II, Section 3, sub-section (i) *vide* number G.S.R. 9 dated the 8th January, 2005.

नई दिल्ली, 25 मई, 2006

सा.का.नि. 127.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गृह मंत्रालय के अधीन लोक नायक जयप्रकाश नारायण राष्ट्रीय अपराधशास्त्र एवं विधि विज्ञान, आशुलिपिक श्रेणी 'ग' (समूह 'ग') भर्ती नियम, 2004 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम लोक नायक जयप्रकाश नारायण राष्ट्रीय अपराधशास्त्र एवं विधि विज्ञान, आशुलिपिक श्रेणी 'ग' (समूह 'ग') भर्ती नियम, 2006 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लोक नायक जयप्रकाश नारायण राष्ट्रीय अपराधशास्त्र एवं विधि विज्ञान, आशुलिपिक श्रेणी 'ग' (समूह 'ग') भर्ती नियम, 2004 के नियम 1 के उप-नियम (1) में, "2004" अंकों के स्थान पर, "2006" अंक रखे जाएंगे।

[फा. सं. 4/4/2001-एनआइसीएफएस/पीएम-II]

रमन मेहरा, अवर सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. 48, तारीख 12 फरवरी, 2005 को प्रकाशित किए गए थे।

New Delhi, the 25th May, 2006

G.S.R. 127.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Lok Nayak Jayaprakash Narayan National Institute of Criminology and Forensic Science, Stenographer Grade 'C' (Group 'C' post) Recruitment Rules, 2004, namely :—

1. (1) These rules may be called the Lok Nayak Jayaprakash Narayan National Institute of Criminology and Forensic Science, Stenographer Grade 'C' (Group 'C' post) Recruitment Amendment Rules, 2006.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Lok Nayak Jayaprakash Narayan National Institute of Criminology and Forensic Science, Stenographer Grade 'C' (Group 'C' post) Recruitment Rules, 2004, in rule 1, in sub-rule (1), for the figures "2004" occurring at the end, the figures "2006" shall be substituted.

[F. No. 4/4/2001-NICFS/PM-II]

RAMAN MEHRA, Under Secy.

Note :- The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, sub-section (i) *vide* number G.S.R. 48 dated the 8th February, 2005.

नई दिल्ली, 25 मई, 2006

सा.का.नि. 128.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गृह मंत्रालय के अधीन लोक नायक जयप्रकाश नारायण राष्ट्रीय अपराधशास्त्र एवं विधि विज्ञान, भंडारी (समूह “ग”) भर्ती नियम, 2004 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम लोक नायक जयप्रकाश नारायण राष्ट्रीय अपराधशास्त्र एवं विधि विज्ञान, भंडारी (समूह “ग”) भर्ती नियम, 2006 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लोक नायक जयप्रकाश नारायण राष्ट्रीय अपराधशास्त्र एवं विधि विज्ञान, भंडारी (समूह “ग”) भर्ती नियम, 2004 के नियम 1 के उपनियम (1) में, 2 “2004” अंकों के स्थान पर, “2006” अंक रखे जाएंगे।

[फा. सं. 4/4/2001-एनआइसीएफएस/पीएम-II]

रमन मेहरा, अवर सचिव

टिप्पणी : मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. 11, तारीख 8 जनवरी, 2005 को प्रकाशित किए गए थे।

New Delhi, the 25th May, 2006

G.S.R. 128.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Lok Nayak Jayaprakash Narayan National Institute of Criminology and Forensic Science, Storekeeper (Group ‘C’ Post) Recruitment Rules, 2004, namely:—

1. (1) These rules may be called the Lok Nayak Jaiprakash Narayan National Institute of Criminology and Forensic Science, Storekeeper (Group ‘C’ Post) Recruitment Amendment Rules, 2006.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Lok Nayak Jayaprakash Narayan National Institute of Criminology and Forensic Science, Storekeeper (Group ‘C’ Post) Recruitment Rules, 2004, in rule 1, in sub-rule (1), for the figures “2004” occurring at the end, the figures “2006” shall be substituted.

[F. No. 4/4/2001-NICFS/PM-II]

RAMAN MEHRA, Under Secy.

Note: The principle rules were published in the Gazette of India Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 11 dated the 8th January, 2005.

नई दिल्ली, 25 मई, 2006

सा.का.नि. 129.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गृह मंत्रालय के अधीन लोक नायक जयप्रकाश नारायण राष्ट्रीय अपराधशास्त्र एवं विधि विज्ञान, अवर श्रेणी लिपिक (समूह “ग”) भर्ती नियम, 2004 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम लोक नायक जयप्रकाश नारायण राष्ट्रीय अपराधशास्त्र एवं विधि विज्ञान, अवर श्रेणी लिपिक (समूह “ग”) भर्ती नियम, 2006 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लोक नायक जयप्रकाश नारायण राष्ट्रीय अपराधशास्त्र एवं विधि विज्ञान, अवर श्रेणी लिपिक (समूह “ग”) भर्ती नियम, 2004 के नियम 1 के उपनियम (1) में, “2004” अंकों के स्थान पर, “2006” अंक रखे जाएंगे।

[फा. सं. 4/4/2001-एनआइसीएफएस/पीएम-II]

रमन मेहरा, अवर सचिव

टिप्पणी : मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. 12, तारीख 8 जनवरी, 2005 को प्रकाशित किए गए थे।

New Delhi, the 25th May, 2006

G.S.R. 129.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Lok Nayak Jayaprakash Narayan National Institute of Criminology and Forensic Science, Lower Division Clerk (Group ‘C’ Post) Recruitment Rules, 2004, namely:—

1527 4/2006-3

1. (1) These rules may be called the Lok Nayak Jaiprakash Narayan National Institute of Criminology and Forensic Science, Lower Division Clerk (Group 'C' Post) Recruitment Amendment Rules, 2006.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Lok Nayak Jayaprakash Narayan Institute of Criminology and Forensic Science, Lower Division Clerk (Group 'C' Post) Recruitment Rules, 2004, in rule 1, in sub-rule (1), for the figures "2004" occurring at the end, the figures "2006" shall be substituted.

[F.No. 4/4/2001-NICFS/PM-II]

RAMAN MEHRA, Under Secy.

Note :- The principle rules were published in the Gazette of India Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 10 dated the 8th January, 2005.

नई दिल्ली, 25 मई, 2006

सा.का.नि. 130.--राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गृह मंत्रालय के अधीन लोक नायक जयप्रकाश नारायण राष्ट्रीय अपराधशास्त्र एवं विधि विज्ञान, उच्च श्रेणी लिपिक (समूह "ग") भर्ती नियम, 2004 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम लोक नायक जयप्रकाश नारायण राष्ट्रीय अपराधशास्त्र एवं विधि विज्ञान, उच्च श्रेणी लिपिक (समूह "ग") भर्ती नियम, 2006 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लोक नायक जयप्रकाश नारायण राष्ट्रीय अपराधशास्त्र एवं विधि विज्ञान, उच्च श्रेणी लिपिक (समूह "ग") भर्ती नियम, 2004 के नियम 1 के उपनियम (1) में, "2004" अंकों के स्थान पर, "2006" अंक रखे जाएंगे।

[फा. सं. 4/4/2001-एनआइसीएफएस/पीएम-II]

रमन मेहरा, अवर सचिव

टिप्पणी : मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. 10, तारीख 8 जनवरी, 2005 को प्रकाशित किए गए थे।

New Delhi, the 25th May, 2006

G.S.R. 130.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Lok Nayak Jayaprakash Narayan National Institute of Criminology and Forensic Science, Upper Division Clerk (Group 'C' Post) Recruitment Rules, 2004, namely:—

1. (1) These rules may be called the Lok Nayak Jaiprakash Narayan National Institute of Criminology and Forensic Science, Upper Division Clerk (Group 'C' Post) Recruitment Amendment Rules, 2006.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Lok Jayaprakash Narayan National Institute of Criminology and Forensic Science, Upper Division Clerk (Group 'C' Post) Recruitment Rules, 2004, in rule 1, in sub-rule (1), for the figures "2004" occurring at the end, the figures "2006" shall be substituted.

[F.No. 4/4/2001-NICFS/PM-II]

RAMAN MEHRA, Under Secy.

Note :- The principle rules were published in the Gazette of India Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 12 dated the 8th January, 2005.

नई दिल्ली, 25 मई, 2006

सा.का.नि. 131.--राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गृह मंत्रालय के अधीन लोक नायक जयप्रकाश नारायण राष्ट्रीय अपराधशास्त्र एवं विधि विज्ञान, स्टाफ कार ड्राइवर साधारण श्रेणी (समूह "ग") भर्ती नियम, 2004 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम लोक नायक जयप्रकाश नारायण राष्ट्रीय अपराधशास्त्र एवं विधि विज्ञान, स्टाफ कार ड्राइवर साधारण श्रेणी (समूह "ग") भर्ती नियम, 2006 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लोक नायक जयप्रकाश नारायण राष्ट्रीय अपराधशास्त्र एवं विधि विज्ञान, स्टाफ कार ड्राइवर साधारण श्रेणी (समूह "ग") भर्ती नियम, 2004 में,—

(i) नियम 1 के उपनियम (1) में, "2004" अंकों के स्थान पर, "2006" अंक रखे जाएंगे;

(ii) अनुसूची में,—

(क) स्तंभ (2) में शीर्ष "पदों की संख्या" में विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

"2* (दो) 2006 (कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)"।

(ख) स्तंभ (7) में, शीर्ष "सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा" में "18 से 25 वर्ष" अंकों और शब्दों के स्थान पर, "21 से 28 वर्ष" अंक और शब्द रखे जाएंगे;

(ग) स्तंभ (8) में उपशीर्ष "आवश्यक" में विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियाँ रखी जाएंगी, अर्थात् :—

"आवश्यक :

1. मोटरकार के लिए विद्यमान्य चालक विज्ञप्ति हो।
2. आठवाँ स्तर उत्तीर्ण।
3. मोटरकार के चालन का कम से कम तीन वर्ष का अनुभव।

वांछनीय :

1. कार के यांत्रिक प्रक्रिया का ज्ञान (अभ्यर्थी को यान के छोटे दोषों को दूर करने के योग्य होना चाहिए।)
2. होमगार्ड या सिविल स्वयं सेवक के रूप में तीन वर्ष की सेवा।

[फा. सं. 4/4/2001-एनआइसीएफएस/पीएम-II]

रमन मेहरा, अवर सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. 13, तारीख 8 जनवरी, 2005 को प्रकाशित किए गए थे।

New Delhi, the 25th May, 2006

G.S.R. 131.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Lok Nayak Jayaprakash Narayan National Institute of Criminology and Forensic Science, Staff Car Driver Ordinary Grade (Group 'C' post) Recruitment Rules, 2004, namely :—

1. (1) These rules may be called the Lok Nayak Jayaprakash Narayan National Institute of Criminology and Forensic Science, Staff Car Driver Ordinary Grade (Group 'C' post) Recruitment Amendment Rules, 2006.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Lok Nayak Jayaprakash Narayan National Institute of Criminology and Forensic Science, Staff Car Driver Ordinary Grade (Group 'C' Post) Recruitment Rules, 2004,—

(i) in rule 1, in sub-rule (1), for the figures "2004" occurring at the end, the figures "2006" shall be substituted;

(ii) in the Schedule,—

(a) under the heading "Number of posts" in column (2), for the existing entry the following entry shall be substituted, namely :—

"2* (Two) 2006 (Subject to variation dependent on workload)";

(b) in column (7), under the heading "age limit for direct recruits" for the figures and words 18 to 25 years, the figures and words "21 to 28 years" shall be substituted;

(c) in column (8), under the sub-heading “essential” for the existing entries, the following entries shall be substituted namely :—

“Essential :

1. Possession of valid driving licence for motor cars.
2. Pass in the 8th Standard.
3. Experience of driving a motor car for at least three years”.

Desirable:

1. Knowledge of motor mechanism (The candidates should be able to remove minor defects in the vehicle).
2. Three years service as Home Guard or Civil Volunteers.

[F. No. 4/4/2001-NICFS/PM- II]

RAMAN MEHRA, Under Secy.

Note :- The principle rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 13 dated the 8th January, 2005.

शहरी विकास मंत्रालय

(संपदा निदेशालय)

नई दिल्ली, 30 मई, 2006

सा.का.नि. 132.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संपदा निदेशालय, प्रादेशिक कार्यालय, चंडीगढ़, (समूह “ग” पद) भर्ती नियम, 2001 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम संपदा निदेशालय, प्रादेशिक कार्यालय, चंडीगढ़ (समूह “ग” पद) (संशोधन) भर्ती नियम, 2006 है।
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. संपदा निदेशालय, प्रादेशिक कार्यालय, चंडीगढ़, (समूह “ग” पद) भर्ती नियम, 2001 की अनुसूची में क्रम सं. 1 के पद के सामने स्तंभ 5 के अधीन “प्रविष्टि” के स्थान पर “चयन” प्रविष्टि रखी जाएगी।

[फा. सं. ए-14016/1/2001-प्रादेशिक]

महेन्द्र सिंह, उप-सम्पदा निदेशक

पाद टिप्पण : मूल नियम सा.का.नि. 664, तारीख 26 नवम्बर, 2001 के अधीन प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

(DIRECTORATE OF ESTATES)

New Delhi, the 30th May, 2006

G.S.R. 132.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Directorate of Estates, Regional Office, Chandigarh, (Group ‘C’ posts) Recruitment Rules, 2001, namely :—

1. (1) These rules may be called the Directorate of Estates, Regional Officer, Chandigarh, (Group ‘C’ posts) Recruitment Amendment Rules, 2006.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Directorate of Estates, Regional Office, Chandigarh (Group ‘C’ posts) Recruitment Rules, 2001, in the Schedule, against the post appearing at serial number 1, for the entry under column 5, the entry “Selection” shall be substituted.

[F. No. A-14016/1/2001-Regions]

MAHENDRA SINGH, Dy. Director of Estates

Foot note :- The principle rules were published vide number G.S.R. 664, dated the 26 November, 2001.